



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]
No. 524]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 2005/अग्रहायण 30, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2005/AGRAHAYANA 30, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 735(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 2 फरवरी, 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि. 51(अ), तारीख 2 फरवरी, 2005 के अधीन प्रकाशित किया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित, होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 3 फरवरी, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औषधि तकनीकी मलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् औषधि और प्रसाधन

सामग्री नियम, 1940 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (आठवां संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख को प्रकट होंगे।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 की अनुसूची श्रेणी में भाग-I के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“भाग-I

कृष्ण तरलों और श्वेत तरलों को लाइसेंस उपबन्ध

रोगाणुनाशकों के लिए मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए भारतीय मानक विनिदेशों [भाग-1061:1997] के अनुरूप होंगे।”

[फा. सं. एक्स-11014/(6)2003-डीएमएस एण्ड पीएफए]

रीता तेवतिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ 28-10/45-एच(1) तारीख 21-12-1945 द्वारा प्रकाशित किए गए और वर्ष 2005 में राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात् :—

(1) सा.का.नि. 32(अ) तारीख 20-1-2005

(2) सा.का.नि. 35(अ) तारीख 20-1-2005

(3) सा.का.नि. 79(अ) तारीख 14-2-2005

(4) सा.का.नि. 174(अ) तारीख 16-3-2005

(5) सा.का.नि. 431(अ) तारीख 30-6-2005

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st December, 2005

G.S.R. 35(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 was published, as required by Sections 12 and 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 2nd February, 2005, under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), number G. S. R. 51(E), dated the 2nd February, 2005, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 3-2-2005;

And whereas no objection or suggestion was received from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 12 and 33 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, hereby makes the following rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, namely :—

1. (I) These rules may be called The Drugs and Cosmetics (8th Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In The Drugs and Cosmetics Rules, 1945, in the Schedule O, for Part I following shall be substituted, namely :—

“Part I**PROVISIONS APPLICABLE TO BLACK FLUIDS AND WHITE FLUIDS**

The standards for disinfectants shall conform to the Indian Standards specification (IS 1061:1997) laid down from time to time by the Bureau of Indian Standards.”

[F. No. X-11014/6/2003-DMS & PFA]

RITA TEAOTIA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification No. F. 28-10/45-H(1) dated 21-12-1945 and amended in the year 2005, by the following notifications published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, namely :—

- (1) GSR 32(E) dated 20-1-2005
- (2) GSR 35(E) dated 20-1-2005
- (3) GSR 79(E) dated 14-2-2005
- (4) GSR 174(E) dated 16-3-2005
- (5) GSR 431(E) dated 30-6-2005